

फैब्रिक को कट और अटैच कैसे करे

इस वीडियो में हम दो कपड़ों के टुकड़ों को साथ में काटना सिलना और किनार बनाना सीखेंगे।



इसके लिए हमें चाहिए 1 20x8 इंच का कपड़ा, मापने का टेप, फुट पट्टी, वॉटर सॉल्युबल मार्कर, क्राफ्ट पिन्स और एक कैची।

कपड़े की लंबाई और चौड़ाई को जानने के लिए उसकी ग्रेन को समझना होगा। इसका एक आसान तरीका है।



एक घड़ी किए हुए कपड़े को ले और आहिस्ता ताने। कपड़े की लंबाई कभी तनती नहीं और चौड़ाई काफी तानी जा सकती है।

अब आप कपड़े को ब्लॉक करने के लिए तैयार हैं।

कपड़े को घड़ी करके उसकी उल्टी बाहर की तरफ रखें। 10 इंच लंबाई नापे और उसे प्वाइंट A मार्क करें। 8 इंच चौड़ाई नापे और उसे प्वाइंट B मार्क करें। प्वाइंट B से ऊपर की ओर प्वाइंट सी पर 10 इंच की लंबाई पर मार्क बनाएं। अब प्वाइंट C से 8 इंच की चौड़ाई पर प्वाइंट A तक नापते हुए मार्क बनाएं।





अब वॉटर सॉल्यूबल मार्कर और स्केल से दोनों प्वाइंट्स इस तरह से जोड़ें की 1 10x8 इंच की आयात बने।

क्राफ्ट पिन से लाइंस के भीतर से कपड़ों को जोड़ दें। इससे दोनों एज साथ जुड़ी रहेगी। यह सब आपको कटिंग शुरू करने से पहले तैयार करना है।

अब अतिरिक्त कपड़े को ध्यान से मार्क की हुई लाइंस के अनुसार काटे। पूरा काटने के बाद पिनस हटा दें। अब आपके पास एक ही नाप के दो टुकड़े होंगे।

टुकड़ों को पलटा कर उनकी सीधी बाजू आमने सामने रखें और साइड पिन से जोड़ दें। अब आप दोनों टुकड़ों को सिलने के लिए तैयार हैं।

अब टुकड़े को प्रेशर फुट पर इस तरह रखें, उसके किनार नीडल प्लेट के ठीक आधे इंच मार्किंग से समरेखित हो। इसके बाद प्रेशर फुट नीचे लाएं।

ध्यान रहे कि स्टिच पैटर्न नोब A पर और स्टिच लेंथ 2 से 3 के बीच में सेट हो। अब कुछ फॉरवर्ड स्टिच सी ले और रिवर्स स्टिच सेलेक्टर से उस पर दोबारा स्टिच लगाते वापस आए ताकि स्टिच पक्की हो जाए।

अब रिवर्स स्टिच सेलेक्टर को ऑफ कर के बाकी की लंबाई सिरे तक सिल दे। इसके बाद मशीन रोककर बैलेंस व्हील अपनी ओर घुमाएं, ताकि सुइ कपड़े में रहे। अब रिवर्स स्टिच सेलेक्टर को ऑन करें और कुछ रिवर्स स्टिच ले। अब बटन को रिलीज कर अंत तक सिले ताकि स्टिच पक्की हो जाए।

यह पूरा हो जाने के बाद प्रेशर फुट उठा कर धागा काट ले।

दोनों टुकड़ों को एक साथ सिल देने के बाद अब बारी है किनारों को जिग जैग स्टिच से बांधने की।

इसके लिए स्टिच पैटर्न सेलेक्टर को सी और स्टिच लेंथ सेलेक्टर को एक पर सेट करें।

कपड़े की किनार फुट ग्रूव की दाहिनी तरफ सम रेखित करें।





बैलेंस व्हील अपनी तरफ घुमाएं और जांच लें कि सुई ठीक से एक बार कपड़े के बाहर और एक बार कपड़े पर चल रही है। अगर सुई अच्छी तरह से कपड़े के साथ सम रेखित है तो सिलना जारी रखें।

सिरे तक पहुँचने के बाद प्रेशर फुट उठाएं और कपड़ा निकाल कर धागे काट लें। अब आपको समझ में आ गया होगा की किस प्रकार दो टुकड़ों को काट कर जोड़ा जाता है, और किनार ज़िग ज़ैग स्टिच से सिली जाती है।

इन दो किनार के पीस सफाई से सील जाने तक प्रैक्टिस करने से आपकी सिलाई काम में नज़ाकत और सफाई झलकेगी।